

-प्रेस नोट-

दिनांक 06.07.2021

थाना अनूपशहर के ग्राम डुंगरा जोगी से अपहृत सवा माह का नवजात शिशु 08 घंटे के अन्दर

सकुशल बरामद, दोनों अपहरणकर्ता(चाचा-चाची) गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.07.2021 को वादी श्री संजय शर्मा पुत्र निरंजनलाल शर्मा निवासी ग्राम डुंगरा जोगी थाना अनूपशहर बुलन्दशहर द्वारा थाना अनूपशहर पर लिखित तहरीर दी गयी कि स्विफ्ट कार सवार एक महिला व एक पुरुष (तथाकथित स्वास्थ्यकर्मी/आंगनबाडी) द्वारा उनके घर आकर उसके सवा माह के बच्चे को टीका लगाने के बहाने अपहरण कर ले गये है जिसके सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर मु0अ0सं0 473/21 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अपहृत बच्चे की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर/डिबाई सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में कई टीमों गठित कर लगाया गया था। पुलिस टीमों द्वारा सवा माह के अपहृत बच्चे की बरामदगी व अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सम्भावित स्थानों पर तलाश की जा रही थी कि पुलिस टीम द्वारा अथक परिश्रम कर मात्र 08 घंटे के अन्दर अपहृत सवा माह के बच्चे लाला को जनपद गाजियाबाद से सकुशल बरामद करने में सफलता प्राप्त की तथा घटना में संलिप्त अभियुक्ता प्रियंका पत्नि सुभाष व अभियुक्त सुभाष पुत्र निरंजन निवासी निवासीगण k-602 वीवीआईपी एड्रेस राजनगर एक्सटेंशन थाना सिहानी जिला गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम डुंगरा जोगी थाना अनूपशहर बुलन्दशहर को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सुभाष पुत्र निरंजनलाल शर्मा निवासी k-602 वीवीआईपी एड्रेस राजनगर एक्सटेंशन थाना सिहानी जिला गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम डुंगराजोगी थाना अनूपशहर बुलन्दशहर
2. श्रीमति प्रियंका पत्नि सुभाष निवासी उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्तों से की गयी पूछताछ एवं छानबीन से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुभाष व उसकी पत्नी प्रियंका बच्चों के संगे चाचा-चाची है जिनको कोई संतान नहीं है। इसलिए बच्चे की चाह को लेकर उनके द्वारा स्वास्थ्यकर्मी/आंगनबाडी का भेष बदलकर अपने भतीजे के अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री छोटे सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अनूपशहर, बुलन्दशहर
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार कोतवाली अनूपशहर, बुलन्दशहर
3. हे0का0 मुकेश कुमार शर्मा कोतवाली अनूपशहर, बुलन्दशहर
4. का0 673 विकुल कुमार कोतवाली अनूपशहर, बुलन्दशहर
5. म0का0 964 प्रेमा कोतवाली अनूपशहर, बुलन्दशहर
6. का0 1480 आकाश कुमार एसओजी टीम, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जनपद बुलन्दशहर
7. का0 मनीष कुमार एसओजी टीम, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जनपद बुलन्दशहर
8. का0 908 नितिन शर्मा एसओजी टीम, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जनपद बुलन्दशहर
9. का0 सचिन कुमार एसओजी टीम, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जनपद बुलन्दशहर